

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16—अगस्त 22, 2014 (श्रावण 25, 1936)

No. 33]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16—AUGUST 22, 2014 (SRAVANA 25, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की
नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 13 जून 2014

संख्या ए. 22012/1/2014-पीएमई---कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.6.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/2/2009-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आईएएस (मध्य प्रदेश:1994) ने वापस अपने मूल संवर्ग अर्थात् मध्य प्रदेश सरकार में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 13 जून, 2014 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

संख्या ए. 22012/1/2014-पीएमई----औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में अपर सचिव नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री शत्रुघ्न सिंह, आईएएस (उत्तराखण्ड : 1983) ने दिनांक 13 जून, 2014 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में अपर सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 16 जून 2014

संख्या ए.22012/1/2014-पीएमई----राष्ट्रपति, डॉ. पी. के. मिश्रा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) (गुजरात:72) को दिनांक 16 जून, 2014 (पूर्वाह्न) से अनुमोदित मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रधान मंत्री के अपर प्रमुख सचिव नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल के सह-समाप्य तक अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 19 जून 2014

संख्या ए. 22012/1/2014-पीएमई----भारतीय उच्चायोग, कोलंबो में उप उच्चायुक्त नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री अरिंदम बागची, (आईएएस : 1995) ने दिनांक 19 जून, 2014 के पूर्वाह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

संख्या ए.22012/1/2014-पीएमई----राष्ट्रपति, डॉ. दीपक मित्तल, (आई.एफ.एस.:1998) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 19 जून, 2014 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 20 जून, 2014

संख्या ए.22017/2/2014-पीएमई----श्री राजीव टोपनो, आई.ए.एस. (गुजरात:1996) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 19 जून, 2014 (पूर्वाह्न) से निदेशक के पद के कार्यभार से मुक्त किया जाता है और प्रधान मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. प्रधान मंत्री के निजी स्टॉफ में श्री टोपनो की नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल के सह-समाप्य तक और उनके विवेकाधीन होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 26 जून 2014

संख्या ए.22012/1/2013-पीएमई----राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री राजेश शर्मा को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 24 दिसंबर, 2013 (पूर्वाह्न) से 31 मई, 2015 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2014

सं.ए.22012/1/2014-पीएमई---प्रधान मंत्री कार्यालय में सचिव श्री आर. रामानुजम, आई.ए.एस.(मध्य प्रदेश:79) ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 30 जून, 2014 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून 2014

सं.आरएस/42/3/2009/52-कार्मिक-दिनांक 17 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं.आरएस/42/3/2009/46-कार्मिक और दिनांक 25 जून, 2013 की अधिसूचना सं. आरएस 42/3/2013/58 के अनुसरण में राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक के रूप में श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवड़ा की प्रतिनियुक्ति की अवधि 26 जून, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 16 जुलाई 2014

सं.आरएस./18/15/2014/59-कार्मिक----दिनांक 28 मार्च, 2012 के परिपत्र सं. आर.एस./31/1/2009-कार्मिक का अधिक्रमण करते हुए और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार, महासचिव, राज्यसभा 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन करते हैं जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे-

- | | | | |
|-------|---|---|------------|
| (i) | श्रीमती वंदना गर्ग, अपर सचिव | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री विमल कुमार, निदेशक | - | सदस्य |
| (iii) | श्रीमती एम. शशिलेखा नायर, संयुक्त निदेशक | - | सदस्य |
| (iv) | श्री एस.सी दीक्षित, संयुक्त निदेशक
और सहायक कल्याण अधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (v) | डा. (सुश्री) कुमुद शर्मा, मानद अध्यक्ष
कार्यकारी समिति, महिला विकास अध्ययन केंद्र
(सी.डब्ल्यू.डी.एस.) नई दिल्ली | - | सदस्य |

2. समिति का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो जाएगा और 28 फरवरी, 2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

3. समिति राज्य सभा सचिवालय में महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के प्रतितोष और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उत्तरदायी होगी।

4. समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगी और उक्त अधिनियम द्वारा सौंपे गए अथवा राज्य सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जुलाई 2014

सं. आई-18011/05/2013-आई.पी.एस.-4----राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:-

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा0पु0से0 अधिकारी का नाम	स्थाई किए जाने की तिथि
1.	श्री सौरभ त्रिपाठी, भा.पु.से. (महाराष्ट्र: 2010)	30.08.2012
2.	श्रीमती वीनिता साहु, भा.पु.से. (महाराष्ट्र: 2010)	30.08.2012
3.	श्री शैलेश बल्कावडे, भा.पु.से. (महाराष्ट्र: 2010)	30.08.2012

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

नई दिल्ली -110001, दिनांक 28 जुलाई 2014

सं. आई-11014/06/2014-आई.पी.एस.-4----केन्द्र सरकार, श्री सुमेर प्रताप सिंह, भा0पु0से0 (उ0प्र0: 2012) का विवाह सुश्री हैरतजीत कौर, भा.व.से. (हरियाणा:2012) के साथ हो जाने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम-1954 के नियम-5 के उप-नियम (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सरकार की सहमति से एतद्वारा श्री सुमेर प्रताप सिंह, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012) का स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश से हरियाणा के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

मुकेश साहनी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2014

सं. आई-14011/19/2014-आई पी एस-1 (I)---भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 31/07/2014 को चयन समिति की दिनांक 20/06/2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2013 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखण्ड संवर्ग में कुल 1 मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल किया गया है।

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	दलीप सिंह कुंवर	30/12/1963

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/19/2014-आई पी एस-1 (II)----राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संवर्ग प्रदान करते हैं।

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	दलीप सिंह कुंवर	30/12/1963

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी ।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

आपदा प्रबंधन प्रभाग

नई दिल्ली—110001, दिनांक जून 2014

सं० I-14020/3/2011-ए.डी.(सी.डी.)—राष्ट्रपति, श्री राजेश एस, चौधरी, सहायक निदेशक नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, नागपुर, गृह मंत्रालय को उसी संस्थान में दिनांक 23.06.2014 से अगले आदर्शों तक प्रोन्नति के आधार पर पे-बैंड 3, (रु. 15,600-39,100/- + रु. 6,600/- ग्रेड पे) में उप निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

गौतम घोष, उप सचिव

राष्ट्रीय आसूचना तंत्र

नई दिल्ली—110001, दिनांक 4 जुलाई 2014

सं. 11011/34/2012-प्रशा./623—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5.6.2013 सी. एस.-I (यू) के तहत केंद्रीय सचिवालय सेवा (सी. एस. एस.) के ग्रेड-1 (अवर सचिव) की चयन सूची 2012 में शामिल होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति तदर्थ आधार पर पहले ही अवर सचिव के रूप में पदोन्नत अनुभाग अधिकारी और नेटग्रिड (गृह मंत्रालय) में कार्यरत श्री कुंज बिहारी त्रिपाठी को दिनांक 04.07.2014 से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा (सी. एस. एस.) के ग्रेड -1 में पदोन्नत करते हैं ।

बलराज, अनुभाग अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2014

[सं.22012/167/2012-अभासे-I]—इस विभाग की दिनांक 16.06.2014 की अधिसूचना सं. 22012/167/2012-अभासे-I के क्रम में केंद्र सरकार एतद्वारा समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा 11.07.2014 से आगे तीन महीने के लिए बढ़ाती है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रमोद कुमार दास, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली—1100067, दिनांक 15 जुलाई 2014

सं.11011/24/2014-प्रशि.(सप्रप्रसं)I—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के एफएचक्यू सिविल सेवा संवर्ग के उप निदेशक, श्री मनीष कुमार झा को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 30.06.2014 की अपराहन से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2014

संख्या-14013/05/2014-अ.भा.से.-III----भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	प्रकाश कृष्णराव थुबे	2003	18.01.2014
2.	शेखर एन. गायकवाड़	2003	18.01.2014
3.	विजय कुमार नागोराव कलम	2004	18.01.2014
4.	सुरेश मन्नालाजी ककनी	2004	18.01.2014
5.	किशोर दत्तात्रेय निंबाळकर	2004	18.01.2014
6.	सुमंत नामदेवराव भांगे	2004	18.01.2014
7.	अनिल महादेव कावडे	2004	18.01.2014
8.	शेखर मनोहर चान्ने	2004	18.01.2014
9.	अन्नासाहेब बी. मिसाल	2004	18.01.2014

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2014

संख्या-14012/01/2014-अ.भा.से.-III----भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तारीख
1.	दानिश अशरफ	एजीएमयूटी	29.08.2013
2.	गौरव सिंह राजावत	एजीएमयूटी	29.08.2013
3.	ईशा खोसला	एजीएमयूटी	29.08.2013
4.	कशिश मित्तल	एजीएमयूटी	29.08.2013
5.	मिताली नामचूम	एजीएमयूटी	29.08.2013
6.	पार्थिवन पी	एजीएमयूटी	29.08.2013
7.	पूजा जैन	एजीएमयूटी	29.08.2013
8.	आर मेनका	एजीएमयूटी	29.08.2013
9.	रवि धवन	एजीएमयूटी	29.08.2013

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तारीख
10.	तारिक थॉमस	एजीएमयूटी	29.08.2013
11.	हरी नारायण एम	आंध्र प्रदेश	29.08.2013
12.	के.वी.एन. चक्रधर बाबू	आंध्र प्रदेश	05.12.2013
13.	लथकर श्रीकेश बालाजीराव	आंध्र प्रदेश	29.08.2013
14.	पाटिल प्रशांत जीवन	आंध्र प्रदेश	29.08.2013
15.	श्वेता तेवतिया	आंध्र प्रदेश	29.08.2013
16.	श्वेता मोहंती	आंध्र प्रदेश	05.12.2013
17.	अंजनेयुलु डोड्डे	झारखंड	29.08.2013
18.	छवि रंजन	झारखंड	29.08.2013
19.	मंजूनाथ भाजंत्री	झारखंड	29.08.2013
20.	राहुल कुमार सिन्हा	झारखंड	29.08.2013
21.	राजेश्वरी बी	झारखंड	29.08.2013
22.	वाघमारे प्रसाद कृष्ण	झारखंड	29.08.2013
23.	हूंग्यो वोरशांग	माणिपुर त्रिपुरा	29.08.2013
24.	किल्लू शिवा कुमार नायडु	माणिपुर त्रिपुरा	29.08.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2014

सं.14012/17/2011-अ.भा.से.-III---भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार राज्य संवर्ग के 2007 बैच के सदस्य श्री दिनेश कुमार को दिनांक 29.08.2013 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं ।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2014

सं. 14013/03/2014-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2000 बैच के पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	स्थायी करने की तारीख
1	मधुमिता रे	25.08.2012
2	नीता नंदी	25.08.2012

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	स्थायी करने की तारीख
3	सौविक सुकुमार मजुमदार	25.08.2012
4	अमलेश पाठक	25.08.2012
5	दीनबंधु भट्टाचार्य	25.08.2012

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2014

सं. ए-12011/1/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 2014 के आदेश संख्या 5/8/2013-सी.एस.।(यू) के अनुसरण में, उच्चतर शिक्षा विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित अनुभाग अधिकारी, श्रीमती जयलक्ष्मी कन्नन को 9 जुलाई, 2014 अपराह्न से, प्रारंभ में 31.05.2015 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600-39,100/- रुपये के वेतनमान (पी.बी.-3) और 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. ए-38012/10/2013-प्रशा.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डा. सीता राम अग्रवाल, अपर उप महानिदेशक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2014 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2014

स. 19016/1/2012-स्था-I—अ.सा.—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी 2012 के आदेश संख्या 12015/4/2012-एसएसएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री कुमार मधुकर राजपूत, जो इस निदेशालय में एसएसएस के सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड II के पद पर कार्यरत हैं, को पे बैंड-2 (9,300-3,4800/- रुपये)+ग्रेड पे 4600 रुपये में तदर्थ आधार पर दिनांक 16.02.2012 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

स. ए 19016/7/2013-स्था-I-अ.सा.—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, इस निदेशालय के निम्नलिखित उम्मीदवारों को पे बैंड-2 (9300-34800 रुपये)+ग्रेड पे 4600 रुपये में अस्थायी आधार पर प्रत्येक नाम के

सामने उल्लिखित तिथि से आर्थिक अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित/गैर मंत्रालयी) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

क्र. सं.	उम्मीदवारों के नाम	कब से
1	श्री राजीव बहल	16.12.2013(पूर्वाह)
2	लाईतोजम संजोय मैतई	30.01.2014(पूर्वाह)
3	अनीमेश कुमार	07.03.2014(पूर्वाह)
4	प्रोसेनजीत दास	15.04.2014(पूर्वाह)
5	सुश्री स्वाती एस.सेनन	07.05.2014(पूर्वाह)
6	सुश्री विनीता	01.07.2014(पूर्वाह)

आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

स. 19016/7/2013-स्था-I-अ.सा.—विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, इस निदेशालय में कार्यरत श्री जसबिंदर पाल, तकनीकी सहायक को पे बैंड-2 (9,300-34,800/- रूपए)+ग्रेड पे 4600/- रूपए में नियमित आधार पर 22.05.2014 (पूर्वाह) से आर्थिक अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित/गैर मंत्रालयी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन
निदेशालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 28 जुलाई 2014

सं.16(2)/2012-पीए(टीए)—राष्ट्रपति ने इस निदेशालय के वेतन बैंड-4 (₹37,400-67,000/-) + ग्रेड वेतन 8700/- में कार्यरत निम्न वैज्ञानिक 'ई' को वेतन बैंड-4 (₹37,400-67,000/-)+ग्रेड वेतन 8,900/- में दिनांक 16.06.2014 (पूर्वाह) से वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर नियुक्त किया है :—

- श्री एम.के.दास
- श्री जगन्ननाथा गुप्ता

एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2014

सं. ए.32022/2/2012-प्रशा.—राष्ट्रपति डीओपीटी के दिनांक 4 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2013-सीएस. आई (यू)- II के अनुसरण में वर्ष 2012 के लिए अवर सचिव (ग्रेड-I) की चयन सूची के सापेक्ष में सीएसएस के निम्नलिखित अवर सचिव (ग्रेड-I) को 4 जुलाई, 2014 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं.	नाम	सीएसएस संख्या
1.	श्री अमित घोषाल	7227
2.	श्री उमेश कुमार भारद्वाज	7290

क्रम सं०	नाम	सीएसएल संख्या
3.	श्री संजय सिंह	7424
4.	श्री गोपाल सिंह	7774

2. अधिकारियों की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिस क्रम में उनके नाम उल्लिखित हैं, चाहे ग्रेड-1 में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तिथि कोई भी हो।

अशोक कुमार, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2014

सं. ई(जी.पी.) 2012/3/8(यातायात)—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के यातायात सेवा के निम्नलिखित 117 ग्रुप-बी अधिकारियों जोकि निम्न दर्शाये गए रेलों से हैं, की 04.04.2014 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आई. आर. टी. एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2012-2013 के लिए पैनल

क्र. सं. अधिकारियों के नाम	रेलवे
1. बिरेन्द्र मोहन	पू.म.रे.
2. वी.वी. रमणमूर्ती	द.म.रे.
3. प्रभाकर मिश्रा	पूर्वो.रे.
4. आर.सी. श्रीवास्तव	पूर्वो.रे.
5. संजय घोष	द.पू.रे.
6. एच.के. मोहन्ती	द.पू.रे.
7. बी.के. राउत	पूर्वतट रे.
8. एल. डी. बेहरा	पूर्वतट रे.
9. देवराज नायक	पूर्वतट रे.
10. एन.के. जयसिंह	पूर्वतट रे.
11. बी. डैनियल क्रिस्टोफर	द.म.रे.
12. डी.आर. पॉल	पूर्वतट रे.
13. पी. एस. सील	पूर्वो.सी.रे.
14. डी.डी. चौधुरी	पूर्वो.सी.रे.
15. ए. झा	पूर्वो.सी.रे.
16. विजय सिंह (अ.जा.)	पूर्वो.रे.
17. आर. एन. झा	पूर्वो.रे.
18. संजीव सेठी	पूर्वो.रे.
19. अरून सक्सेना	पूर्वो.रे.
20. शिखा रानी रॉय	पूर्वो.सी.रे.
21. विरेन्द्र कुमार	उ.रे.
22. बी.के. साहू	द.पू.रे.
23. एस. के. शुक्ला	प.रे.
24. के.के. पाठक	द.पू.म.रे.
25. ए. एम. मसराम (अ.ज.जा.)	द.पू.म.रे.

26.	ए.के. सिंहा (अ.ज.जा.)	द.पू.रे.
27.	जयदेव मंडल (अ.जा.)	द.पू.रे.
28.	आशिष मुखर्जी	द.पू.रे.
29.	ए. लक्ष्मीनारायणारेड्डी	द.म.रे.
30.	ए. मल्लेश्वरा राव	द.म.रे.
31.	दीपंकर दत्ता	पू.रे.
32.	एस.सेनगुप्ता	पूर्वो.सी.रे.
33.	पी. कुमार (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.
34.	डी. ठकुरिया	पूर्वो.सी.रे.
35.	अलकनंदा सरकार	पूर्वो.सी.रे.
36.	बी. के. मिश्रा	पूर्वो.सी.रे.
37.	सी. पद्मादास	द.रे.
38.	शंकर मुखर्जी	पूर्वो.सी.रे.
39.	पी.एल. भुटिया (अ.ज.जा.)	पूर्वो.सी.रे.
40.	अमर कुमार दास (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
41.	रामवीर सिंह (अ.जा.)	उ.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
42.	जी.एल. मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
43.	राम नाथ मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
44.	भुपाल एस. ब्रिजवाल (अ.ज.जा.)	पूर्वो.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
45.	लल्लन प्रसाद (अ.जा.)	पूर्वो.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
46.	रामअवतार (अ.जा.)	उ.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
47.	बी. के. चौधरी (अ.जा.)	पू.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
48.	एस. गोविन्द सामी (अ.जा.)	द.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
49.	राजिन्दर प्रसाद पाण्डे	उ.रे.
50.	अजय भारद्वाज	उ.रे.
51.	एस.एस. रावत	उ.रे.
52.	तरुन शुक्ला	पूर्वो.रे.
53.	यश पाल सिंह	पूर्वो.रे.
54.	सत्यवीर श्रीवास्तव	पूर्वो.रे.
55.	ज्योति भटेजा	उ.रे.
56.	के.एल. महावर (अ.जा.)	प.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
57.	बाबूलाल मचाया (अ.जा.)	प.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

2013-2014 के लिए पैनाल

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	रेलवे
1. मंजीत सिंह	उ.रे.
2. वी.ए. अय्यर	प.रे.
3. वी.के. जौहरी	प.रे.
4. जितेन्दर के. अग्रवाल	प.रे.
5. एस.के. यादव	प.रे.
6. संजय श्रीवास्तव	प.रे.
7. सी. एस. कुरील (अ.जा.)	प.रे.

8.	अशोक कुमार अग्रवाला	द.पू.रे.
9.	मानसरंजन आचार्य	द.पू.रे.
10.	तपन कुमार भट्टाचारजी	द.पू.रे.
11.	आर.वी.के. सिंह	पूर्व म.रे.
12.	बिनोद झा	पूर्व म.रे.
13.	जहर बसु	द.पू.रे.
14.	आर.एन. डे	पूर्व म.रे.
15.	पी.के. सामल	द.पू.रे.
16.	वी. वेंकटराज	द.रे.
17.	मोहम्मद निजार	द.रे.
18.	पी.एल. अशोक कुमार	द.रे.
19.	ए.के. खरे	प.म.रे.
20.	एन.के. वाथरे	प.म.रे.
21.	एस. ब्रह्मो (अ.ज.जा.)	पूर्वो.सी.रे.
22.	सुबीमल सेन	पूर्वो.सी.रे.
23.	आर.के. शर्मा	म.रे.
24.	के. वी. थॉमस	म.रे.
25.	आर.के. मोदी	म.रे.
26.	के.के. मिश्रा	म.रे.
27.	के.ई. अन्सार	द.प.रे.
28.	एम.आर. बालामुरुगा दास	द.प.रे.
29.	एस. इकबाल अहमद	द.प.रे.
30.	एम. श्रीकान्त (अ.ज.जा.)	द.प.रे.
31.	वाई.पी. त्रिपाठी	उ.रे.
32.	राज किशोर	पूर्व म.रे.
33.	हरीश गांधी	उ.रे.
34.	एस.आर. बिस्वास (अ.जा.)	द.पू.म.रे.
35.	निरंजन घोष	द.पू.म.रे.
36.	जे. पूर्ती (अ.ज.जा.)	द.पू.म.रे.
37.	आर. जे. शर्मा	द.पू.म.रे.
38.	शेर सिंह	उ.रे.
39.	पी.सी. डूडी	उ.रे.
40.	ए.के. नौलखा	उ.रे.
41.	राकेश मेहता	उ.रे.
42.	देवी सिंह (अ.जा.)	उ.रे.
43.	यश कुमार (अ.जा.)	उ.रे.
44.	जे.पी. सिंह	पूर्वो. रे.
45.	लालता राम (अ.जा.)	पूर्वो. रे.
46.	जे. ए. आजमी	पूर्वो. रे.
47.	डी.एस. मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे.

48.	निर्मल कुमार सिन्हा	पूर्वो.रे.	
49.	डी.डी. अहीरवार (अ.जा.)	प.म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
50.	मुकुल बासुमातरी (अ.ज.जा.)	पूर्वो.सी. रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
51.	वी. सुधाकर नायक (अ.ज.जा.)	द.प.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
52.	जे. अरुन्धती (अ.ज.जा.)	द.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
53.	कमल देव दास (अ.जा.)	पू.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
54.	बी.एल. कोरी (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
55.	टी.जी. जाधव (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
56.	मानिक राम (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
57.	तेक बहादुर (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
58.	ए.के. सक्सेना	पूर्वो.रे.	
59.	के.वी. रमन्ना (अ.जा.)	द.पू.म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
60.	वी.जी. श्यामकुले (अ.जा.)	द.पू.म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति उच्चन्यायालय, उड़ीसा (कटक) में दायर की गई WP (A)NO.4365/2014 तथा कैट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका संख्या 220/2014 के परिणाम के अध्यधीन की जाती है।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था. (राज.पदो.)

रेलवे बोर्ड

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 13th June 2014

No. A-22012/1/2014-PME—Pursuant to DoPT OM No.21/2/2009-EO(MM-I) dated 13.6.2014, Smt. Pallavi Jain Govil, IAS (MP:94) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 13th June, 2014 to join back her parent cadre i.e. State Government of Madhya Pradesh.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A-22012/1/2014-PME—Consequent upon his appointment as Additional Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Shri Shatrughna Singh, IAS (UK:1983) has relinquished the charge of the post of Additional Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 13th June, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 16th June 2014

No. A.22012/1/2014-PME—The President is pleased to appoint Dr. P. K. Mishra, IAS (Retired) (GJ:72), as Additional Principal Secretary to Prime Minister with effect from the forenoon of 16th June, 2014 on approved standard terms and conditions. His appointment will be co-terminus with the term of the Prime Minister or till further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 19th June 2014

No. A.22012/1/2014-PME—Consequent upon his appointment as Deputy High Commissioner, High Commission of India to Colombo, Shri Arindam Bagchi, (IFS:1995) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 19th June, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A.22012/1/2014-PME—The President is pleased to appoint Dr. Deepak Mittal (IFS:1998) as Director in the Prime Minister's Office w.e.f. the forenoon of 19th June, 2014 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier

R. MYTHILI, Under Secy.

The 20th June 2014

No. A.22017/2/2014-PME—Shri Rajeev Topno, IAS (GJ:1996) is relieved of his duties as Director in the Prime Minister's Office and appointed as Private Secretary to the Prime Minister with effect from the forenoon of 19th June, 2014.

2. The appointment of Shri Topno on the personal staff of Prime Minister is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 26th June 2014

No. A.22012/1/2013-PME—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Sharma, Section Officer of Central Secretariat Service, as Under Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 24th December, 2013 upto 31st May, 2015 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 30th June 2014

No.A.22012/1/2014-PME—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri R. Ramanujam, IAS(MP:79), Secretary in the Prime Minister's Office, has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30th June, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th June 2014

No. RS/42/3/2009/52-Perl.—In continuation of Notification Nos. RS/42/3/2009/46- Perl. dated 17th July, 2009 and RS/42/3/2013/58- Perl. dated 25th June, 2013, the deputation of Shri Prasanna Kumar Suryadevara as Joint Director in the Rajya Sabha Secretariat has been extended for a further period of one year with effect from forenoon of 26th June, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 16th July 2014

No. RS/18/15/2014/59 -Perl.—In supersession of Circular No. RS/31/1/2009-Perl. dated 28th March, 2012, and in terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Secretary-General, Rajya Sabha is pleased to constitute an 'Internal Complaints Committee' comprising of the following members:—

- | | | | |
|-------|--|---|-------------------|
| (i) | Smt. Vandana Garg, Additional Secretary | - | Presiding Officer |
| (ii) | Shri Vimal Kumar, Director | - | Member |
| (iii) | Smt. M. Sasilekha Nair, Joint Director | - | Member |
| (iv) | Shri S.C. Dixit, Joint Director & Assistant Welfare Officer. | - | Member-Secretary |
| (v) | Dr. (Ms.) Kumud Sharma, Honorary Chairperson, Executive Committee, Centre for Women's Development Studies (CWDS), New Delhi. | - | Member |

2. The tenure of the committee shall commence with immediate effect and would be for a period upto 28th February, 2015 or until further orders, whichever is earlier.

3. The Committee would be responsible for providing protection against sexual harassment of women in the Rajya Sabha Secretariat and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

4. The Committee will exercise the powers conferred in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and perform the duties and responsibilities as assigned to it under the said Act or as assigned by the Rajya Sabha Secretariat from time to time.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 24th July 2014

No. I-18011/05/2013-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS Probationers borne on the cadre of Maharashtra, in the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of confirmation
1.	Shri Saurabh Tripathy, IPS(MH:2010)	30.08.2012
2.	Smt Vinita Sahu, IPS (MH:2010)	30.08.2012
3.	Shri Shailesh Balkawde, IPS (MH:2010)	30.08.2012

ARVIND GAUR, Under Secy.

New Delhi-110001, the 28th July 2014

No. I-11014/06/2014-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Haryana, the Central Government hereby transfers Shri Sumer Pratap Singh, IPS (UP:2012) from Uttar Pradesh to the IPS Cadre of Haryana on the ground of his marriage with Ms Hairatjit Kaur, IFS (HR:2012).

MUKESH SAWHNEY, Under Secy.

New Delhi, the 1st August 2014

No. I-14011/19/2014-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 31.07.2014, approved the Select List of the year 2013, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 20.06.2014, containing the name of the following State Police Service officer of Uttarakhand, towards filling up 1 (one) substantive vacancy in the Uttarakhand Cadre of IPS:—

Select List 2013

S.No.	Name of the officer (Smt./Shri)	Date of Birth
1	Daleep Singh Kunwar	30.12.1963

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/19/2014-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Uttarakhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him the Uttarakhand Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2013

S. No.	Name of the office (Shri)	Date of Birth
1.	Daleep Singh Kunwar	30.12.1963

2. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi-110001, the July 2014

No. I-14020/3/2011-Ad(CD)—The President is pleased to appoint Shri Rajesh S. Chaudhari, Assistant Director, National Civil Defence College, Nagpur, Ministry of Home Affairs as Deputy Director in the same institute on promotion basis in the Pay Band-3 (Rs.15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/-w.e.f. from 23rd June. 2014 until further order.

GAUTAM GHOSH, Dy. Secy.

NATIONAL INTELLIGENCE GRID

New Delhi-110001, the 4th July 2014

No. 11011/34/2012-Ad./63—Consequent upon his inclusion in the Select List 2012 of Grade-I (Under Secretary) of the CSS vide DoPT's O.M. No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014, the President is pleased to appoint Shri Kunj Bihari Tripathi, Section Officer of the CSS already promoted as Under Secretary on ad-hoc basis and working in NATGRID (MHA) to the Grade-I (US) of CSS on regular basis w.e.f. 04.07.2014.

BALRAJ, Section Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 30th July 2014

No. 22012/167/2012-AIS-I—In continuation of this Department's Notification No. 22012/167/2012-AIS.I dated 16.06.2014, the Central Government hereby further extends the time for submission of the report by the Committee by three months beyond 11.07.2014.

2. This issues with the approval of the Competent Authority.

PRAMOD KUMAR DAS, Jt. Secy.

New Delhi-110067, the 15th July 2014

No.11011/24/2014-Trg(ISTM)—The President is pleased to appoint to Shri Manish Kumar Jha, Deputy Director of AFHQ Civil Service Cadre, Ministry of Defence, as Joint Director (Financial Management) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of four years w.e.f. the afternoon of 30.06.2014 or till the further orders, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

New Delhi, the 16th July 2014

No.14013/05/2014 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them:—

Sl. No.	Name of the officer S/Sh/Smt.	Batch	Due Date of confirmation
1	2	3	4
1.	Prakash Krishnrao Thube	2003	18.01.2014
2.	Shekhar N. Gaikwad	2003	18.01.2014

1	2	3	4
3.	Vijaykumar Nagorao Kalam	2004	18.01.2014
4.	Suresh Mannalaji Kakani	2004	18.01.2014
5.	Kishor Dattatraya Nimbalkar	2004	18.01.2014
6.	Sumant Namdeorao Bhange	2004	18.01.2014
7.	Anil Mahadeo Kawade	2004	18.01.2014
8.	Shekhar Manohar Channe	2004	18.01.2014
9.	Annasaheb B.Misal	2004	18.01.2014

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 17th July 2014

No.14012/01/2014-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service of 2011 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them:—

Sl. No.	Name of Officer (Ms/S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	DANISH ASHRAF	AGMUT	29.08.2013
2.	GAURAV SINGH RAJAWAT	AGMUT	29.08.2013
3.	ISHA KHOSLA	AGMUT	29.08.2013
4.	KASHISH MITTAL	AGMUT	29.08.2013
5.	MITALI NAMCHOOM	AGMUT	29.08.2013
6.	PARTHIBAN P	AGMUT	29.08.2013
7.	POOJA JAIN	AGMUT	29.08.2013
8.	R MENAKA	AGMUT	29.08.2013
9.	RAVI DHAWAN	AGMUT	29.08.2013
10.	TARIQ THOMAS	AGMUT	29.08.2013
11.	HARI NARAYANAN M	ANDHRA PRADESH	29.08.2013
12.	KVN CHAKRADHAR BABU	ANDHRA PRADESH	05.12.2013
13.	LATHKAR SHRIKESH BALAJIRAO	ANDHRA PRADESH	29.08.2013
14.	PATIL PRASHANT JEEVAN	ANDHRA PRADESH	29.08.2013
15.	SHWETA TEOTIA	ANDHRA PRADESH	29.08.2013
16.	SWETA MOHANTY	ANDHRA PRADESH	05.12.2013

1	2	3	4
17.	ANJANEYULU DODDE	JHARKHAND	29.08.2013
18.	CHHAVI RANJAN	JHARKHAND	29.08.2013
19.	MANJUNATH BHAJANTRI	JHARKHAND	29.08.2013
20.	RAHUL KUMAR SINHA	JHARKHAND	29.08.2013
21.	RAJESHWARI B	JHARKHAND	29.08.2013
22.	WAGHMARE PRASAD KRISHNA	JHARKHAND	29.08.2013
23.	HUNGYO WORSHANG	MANIPUR TRIPURA	29.08.2013
24.	KILLU SIVA KUMAR NAIDU	MANIPUR TRIPURA	29.08.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 30th July 2014

No.14012/17/2011 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Dinesh Kumar, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Bihar of 2007 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 29.08.2013.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 1st August 2014

No.14013/03/2014 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of West Bengal of 2000 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them:—

Sl. No.	Name of the officer S/Sh./Smt.	Due Date of confirmation
1.	Madhumita Ray	25.08.2012
2.	Nita Nandy	25.08.2012
3.	Souvik Sukumar Majumdar	25.08.2012
4.	Amalesh Pathak	25.08.2012
5.	Dinabandhu Bhattacharyya	25.08.2012

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 28th July 2014

No. A-12011/1/2014-Estt.—In pursuance of DOP&T's Order No.5/8/2013-CS.I(U) dated 2nd July, 2014, the President is pleased to appoint Smt. Jayalakshmi Kannan, a regular Section Officer of CSS in the Department of Higher Education, as Under Secretary of CSS purely on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs.15,600—39,100/-(PB-3) plus

Grade Pay of Rs.6,600/- in the Department of Consumer Affairs with effect from the afternoon of 9th July, 2014 initially for a period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is the earliest.

2. This ad-hoc appointment is subject to the conditions prescribed in above said O.M. of DoP&T.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 25th July 2014

No. A-38012/10/2013-Admn.-I—Dr. Sita Ram Agrawal, Addl. DDG of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on the afternoon of 30.06.2014.

JITENDER SINGH, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS

New Delhi, the 30th July 2014

No. 19016/1/2012-E.I-ES—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12015/4/2012-SSS dated 16th February, 2012, the President is pleased to appoint Shri Kumar Madhukar Rajput, Statistical Investigator Grade-II of SSS in this Directorate as Senior Statistical officer (Group-B, Gazetted) on ad-hoc basis in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 16.02.2012 (FN).

R. K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer

No. A-19016/7/2013-E.I-ES. On recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following candidates in this Directorate as Economic Officer (Group-B, Gazetted/Non-Ministerial) on temporary basis in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-)+Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from date mentioned against each name. They will remain on probation for a period of two years.

Sl. No.	Name of the candidates S/Shri	with effect from
1.	Rajiv Bahl	16.12.2013 (FN)
2.	Laitonjam Sanjoy Meitei	30.01.2014 (FN)
3.	Animesh Kumar	07.03.2014 (FN)
4.	Prosenjit Das	15.04.2014 (FN)
5.	Ms. Swathi S. Senan	07.05.2014 (FN)
6.	Ms. Vinita	01.07.2014 (FN)

R. K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer

No. 19016/7/2013-E.I-ES. On recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Jasbinder Pal, Technical Assistant in this Directorate as Economic Officer (Group-B, Gazetted/Non-Ministerial) on regular basis in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-)+Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 22.05.2014(FN).

R. K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)
STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi- 110 003, the 28th July 2014

No. 16(2)/2012-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'E' in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-) of this Directorate as Scientist 'F' in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-) with effect from 16.06.2014 (F.N.):—

- (i) Shri M.K. Das
- (ii) Shri Jagannatha Gupta

S. RAMAKRISHNAN, Jt, Director

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 17th July 2014

No. A.32022/2/2012-Admn.—The President is pleased to appoint following Officers of CSS as Under Secretary (Grade-I) of CSS on regular basis with effect from 4th July, 2014 against the Select List of Under Secretary (Grade-I) for the year 2012, in pursuance to DOPT's O.M. No.5/6/2013-CS.I (U) dated 4th July, 2014:—

S. No.	Name	CSL No.
1.	Shri Amit Ghosal	7227
2.	Shri Umesh Kumar Bhardwaj	7290
3.	Shri Sanjay Singh	7424
4.	Shri Gopal Singh	7774

2. The Seniority of the officers will be in the same order in which their names have been mentioned, irrespective of actual dates of their appointment to the Grade-I.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st July 2014

No. E(GP)2012/3/8 (Traffic)—The President is pleased to appoint the under-mentioned 117 Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways belonging to different Zonal Railways as mentioned against each, to Group 'A'/ Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS), with effect from 04-04-2014:—

PANEL FOR 2012-13

S. No.	Name of officer	Rly
1.	BIRENDRA MOHAN	ECR
2.	V.V. RAMANAMURTHY	SCR
3.	PRABHAKAR MISHRA	NER
4.	R.C. SRIVASTAVA	NER

5.	SANJAY GHOSH	SER
6.	H.K. MOHANTY	SER
7.	B.K.ROUTH	ECOR
8.	L.D.BEHERA	ECOR
9.	DEBARAJ NAYAK	ECOR
10.	N.K.JAYASINGH	ECOR
11.	B. DANIEL CHRISTOPHER	SCR
12.	D.R.PAUL	ECOR
13.	P.S. SEAL	NFR
14.	D.D.CHOUDHURY	NFR
15.	A. JHA	NFR
16.	VIJAY SINGH(SC)	NER
17.	R.N. JHA	NER
18.	SANJEEV SETHI	NER
19.	ARUN SAXENA	NER
20.	SIKHA RANI ROY	NFR
21.	VIRENDER KUMAR	NR
22.	B.K.SAHU	SER
23.	S.K. SHUKLA	WR
24.	K.K. PATHAK	SECR
25.	A.M. MASRAM(ST)	SECR
26.	A.K.SINGHA(ST)	SER
27.	JAYDEV MONDAL(SC)	SER
28.	ASIS MUKHERJEE	SER
29.	A. LAKSHMINARAYANA REDDY	SCR
30.	A. MALLESWARA RAO	SCR
31.	DIPANKAR DUTTA	ER
32.	S.SENGUPTA	NFR
33.	P.KUMAR(SC)	NFR
34.	D.THAKURIA	NFR
35.	ALKANANDA SARKAR	NFR
36.	B.K.MISRA	NFR
37.	C.PADAMADAS	SR

38.	SANKAR MUKHERJEE	NFR	
39.	P.L.BHUTIA(ST)	NFR	
40.	AMAR KR. DAS(SC)	NFR	Promoted against SC vacancy
41.	RAMVIR SINGH(SC)	NR	Promoted against SC vacancy
42.	G.L. MEENA(ST)	NR	Promoted against ST vacancy
43.	RAM NATH MEENA(ST)	NR	Promoted against ST vacancy
44.	BHUPAL S.BRIJWAL(ST)	NER	Promoted against ST vacancy
45.	LALLAN PRASAD(SC)	NER	Promoted against SC vacancy
46.	RAM AVTAR(SC)	NR	Promoted against SC vacancy
47.	B.K.CHAUDHARY(SC)	ECR	Promoted against SC vacancy
48.	S.GOVINDA SAMY(SC)	SR	Promoted against SC vacancy
49.	RAJINDER PD.PANDEY	NR	
50.	AJAY BHARDWAJ	NR	
51.	S.S. RAWAT	NR	
52.	TARUN SHUKLA	NER	
53.	YASH PAL SINGH	NER	
54.	SATYAVIR SRIVASTAVA	NER	
55.	JYOTI BHATEJA	NR	
56.	K.L.MAHAWAR(SC)	WCR	Promoted against SC vacancy
57.	BABULAL MACHAYA(SC)	WCR	Promoted against SC vacancy

PANEL FOR 2013-14

S. No.	Name of officer	Rly
1.	MANJEET SINGH	NR
2.	V.A.IYER	WR
3.	V.K. JOHRI	WR
4.	JITENDRA K. AGARWAL	WR
5.	S.K.YADAV	WR
6.	SANJAY SHRIVASTAVA	WR
7.	C.S.KURIL(SC)	WR
8.	ASHOK KR. AGRAWALLA	SER
9.	MANASRANJAN ACHARYA	SER
10.	TAPAN KR. BHATTACHARJEE	SER
11.	R.V.K.SINGH	ECR

12.	BINOD JHA	ECR
13.	JAHAR BASU	SER
14.	R.N.DEY	ECR
15.	P.K. SAMAL	SER
16.	V.VENKATARAJ	SR
17.	MOHAMED NIZAR	SR
18.	P.L.ASHOK KUMAR	SR
19.	A.K.KHARE	WCR
20.	N.K.WATHRE	WCR
21.	S.BRAHMO(ST)	NFR
22.	SUBIMAL SEN	NFR
23.	R.K. SHARMA	CR
24.	K.V. THOMAS	CR
25.	R.K. MODI	CR
26.	K.K. MISHRA	CR
27.	K.E.ANSAR	SWR
28.	M.R.BALAMURUGA DAS	SWR
29.	S.IQBAL AHMED	SWR
30.	M.SRIKANTA(ST)	SWR
31.	Y.P. TRIPATHI	NR
32.	RAJ KISHORE	ECR
33.	HARISH GANDHI	NR
34.	S.R.BISWAS(SC)	SECR
35.	NIRANJAN GHOSH	SECR
36.	J.PURTY(ST)	SECR
37.	R.J.SHARMA	SECR
38.	SHER SINGH	NR
39.	P.C. DUDI	NR
40.	A.K. NAULAKHA	NR
41.	RAKESH MEHTA	NR
42.	DEVI SINGH(SC)	NR
43.	YASH KUMAR(SC)	NR
44.	J.P.SINGH	NER

45.	LALTA RAM(SC)	NER	
46.	J.A.AZMI	NER	
47.	D.S. MEENA(ST)	NR	
48.	NIRMAL KR.SINHA	NER	
49.	D.D.AHIRWAR(SC)	WCR	Promoted against SC vacancy
50.	MUKUL BASUMATARY(ST)	NFR	Promoted against ST vacancy
51.	V.SUDHAKARA NAIK(ST)	SWR	Promoted against ST vacancy
52.	J. ARUNDHATI(ST)	SR	Promoted against ST vacancy
53.	KAMAL DEO DAS(SC)	ER	Promoted against SC vacancy
54.	B.L. KORI(SC)	CR	Promoted against SC vacancy
55.	T.G. JADHAV(SC)	CR	Promoted against SC vacancy
56.	MANIK RAM(SC)	CR	Promoted against SC vacancy
57.	TEK BAHADUR(SC)	NFR	Promoted against SC vacancy
58.	A.K. SAXENA	NER	
59.	K.V. RAMANA(SC)	SECR	Promoted against SC vacancy
60.	V.G.SHYAMKULE(SC)	SECR	Promoted against SC vacancy

2. The appointment of the above officers is, however, subject to the final outcome of WP(C) No. 4365/2014 pending before the High Court of Orissa, Cuttack and O.A. No. 220/2014 pending before CAT/ALD.

SUMAN SHARMA
Director Estt.(GP)
(Railway Board)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in